

भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120]

नई दिल्ली, बुधवार, चैत्र, 19, 1972/चैत्र 30, 1894

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 1972/CHAITRA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 19th April, 1972

G.S.R. 250(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts (i) radiograms and (ii) radios with extra space in cabinet for fitting in record players or record changers, falling under Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the amount specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Amount (Rupees per set)
(1)	(2)
Radiogram, or radio with extra space in cabinet for fitting in record players or record changers, the price of which at the point of sale to the consumer—	
(i) does not exceed Rs. 165	
(a) if manufactured in an industrial unit in respect of which the Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only installed therein, on the date of the initial installation of the plant and machinery is not more than Rs. 7.5 lakhs ;	Nil

(1)	(2)
(b) in the case of others.	14.40
(ii) exceeds Rs. 165 but does not exceed Rs. 225	28.80
(iii) exceeds Rs. 225 but does not exceed Rs. 300	48.00
(iv) exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 375	72.00
(v) exceeds Rs. 375 but does not exceed Rs. 475	108.00
(vi) exceeds Rs. 475 but does not exceed Rs. 575	144.00
(vii) exceeds Rs. 575 but does not exceed Rs. 675	192.00
(viii) exceeds Rs. 675	300.00

Explanation—For the purpose of this notification in calculating the price of any such radio-gram or radio, the element of excise duty or sales tax or both, if any, added to the price thereof shall not be taken into account.

[No. 124/72]

R. JAYARAMAN,
Under Secretary.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग).

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1972

सांका०नि० 250 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और ममक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के ऐसे (i) रेडियोग्राम और (ii) रेडियो को, जिनकी कैबिनिट में रिकार्ड प्लेयरों या रिकार्ड चेंजरों को फिट करने के लिए फालतू स्थान है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है ।

सारणी

वर्णन	रकम (रुपए प्रति सेट)
(1)	(2)

रेडियोग्राम, या रेडियो जिनकी कैबिनिट में रिकार्ड प्लेयरों या रिकार्ड चेंजरों को फिट करने के लिए फालतू स्थान है और उपभोक्ता को विक्रय के समय उसकी कीमत—

(i) 165 रु० अधिक नहीं है

(क) यदि विनिर्माण ऐसी औद्योगिक इकाई में किया गया हो जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो गया है

(1)	(2)
कि उसमें संस्थापित संग्रह और मशीनरी पर पूर्ण वित्तियान, संग्रह और मशीनरी के प्रारम्भिक संस्थापन की तारीख को 7.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है ;	शून्य
(ख) अन्य दशा में	14.40
(ii) 165 रु० से अधिक है किन्तु 225 रु० से अधिक नहीं है ।	28.80
(iii) 225 रु० से अधिक है किन्तु 300 रु० से अधिक नहीं है ।	48.00
(iv) 300 रु० से अधिक है किन्तु 375 रु० से अधिक नहीं है ।	72.00
(v) 375 रु० से अधिक है किन्तु 475 रु० से अधिक नहीं है ।	108.00
(vi) 475 रु० से अधिक है किन्तु 575 रु० से अधिक नहीं है ।	144.00
(vii) 575 रु० से अधिक है किन्तु 675 रु० से अधिक नहीं है ।	192.00
(viii) 675 रु० से अधिक है ।	300.00

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे रेडियोग्राम या रेडियो की कीमत की संगणना करते समय, उसकी कीमत में जुड़े उत्पाद-शुल्क या विक्रय कर या दोनों के अंश, यदि कोई हो, को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

[सं० 124/72]

भार० जयरामन,
अवर सचिव ।

